

**DIPLOMA IN VALUE ADDED PRODUCTS
FROM FRUITS AND VEGETABLES (DVAPFV)****Term-End Examination****December, 2022****BPVI-001 : FOOD FUNDAMENTALS***Time : 2 hours**Maximum Marks : 50*

Note : Attempt any **five** questions. All questions carry equal marks.

- 1.** (a) What is food ? Enlist the food items. 4
(b) What is the difference between food science and food technology ? 3
(c) Write the full form of the following : $3 \times 1 = 3$
(i) NMR
(ii) NIR
(iii) AGMARK

- 2.** (a) Define the following : $5 \times 1 = 5$
(i) Irradiation
(ii) Microorganisms
(iii) High Pressure Technology
(iv) Sterilization
(v) Food Deterioration

- (b) Enlist the nutrients of our food. Why are they important in the human diet ? 5

- 3.** (a) Enlist the segments of the food processing industry in India. 5
(b) What is shelf life and dating of foods ? 5
- 4.** (a) Differentiate between cleaning and grading. 3
(b) Describe pre-cooling. 4
(c) Differentiate between health food and designer food. 3
- 5.** (a) Describe white revolution in India. 5
(b) Define food pyramid. What is the importance of food pyramid in food selection for the diet ? 5
- 6.** (a) Write down the three important functions of our body for which we need energy. 3
(b) Describe in brief the colour pigments present in fruits and vegetables. 5
(c) What is the physiological value of carbohydrates, fats and proteins ? 2
- 7.** (a) Fill in the blanks : 5×1=5
(i) Home of spices is _____.
(ii) Queen of spices is _____.
(iii) King of spices is _____.
(iv) Pungent principle in pepper is due to _____.
(v) Main adulteration in the whole pepper is _____.
(b) Name different methods that can reduce the nutrient losses. 5

- 8.** (a) Enlist the products that can be made from sugarcane. 5
- (b) Write the full form of the following : $5 \times 1 = 5$
- (i) BIS
 - (ii) ISO
 - (iii) HACCP
 - (iv) GMP
 - (v) MFPI
-

फलों एवं सब्जियों से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा
(डी.वी.ए.पी.एफ.वी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2022

बी.पी.वी.आई.-001 : खाद्य सम्बन्धी आधारभूत तथ्य

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए / सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (क) खाद्य क्या है ? खाद्य वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए। 4
- (ख) खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी में क्या अन्तर है ? 3
- (ग) निम्नलिखित संक्षिप्ताक्षरों/संक्षिप्त शब्दों के पूरे रूप लिखिए : $3 \times 1 = 3$
- (i) एन.एम.आर.
 - (ii) एन.आई.आर.
 - (iii) एग्मार्क
2. (क) निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए : $5 \times 1 = 5$
- (i) किरणन
 - (ii) सूक्ष्मजीव
 - (iii) उच्च दबाव प्रौद्योगिकी
 - (iv) निर्जीवीकरण
 - (v) खाद्य हास
- (ख) हमारे खाद्य में पोषक तत्त्वों की सूची बनाइए। मानव आहार में ये महत्वपूर्ण क्यों हैं ? 5

3. (क) भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के खंडों की सूची
तैयार कीजिए। 5
- (ख) जीर्णनकाल (निधानी आयु) और खाद्य काल का
निर्धारण क्या है ? 5
4. (क) साफ-सफाई और श्रेणीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3
- (ख) पूर्व-शीतलन का वर्णन कीजिए। 4
- (ग) स्वास्थ्यवर्धक भोजन और अभिकल्पित (डिज़ाइनर)
भोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3
5. (क) भारत में श्वेत क्रांति का वर्णन कीजिए। 5
- (ख) आहार पिरामिड को परिभाषित कीजिए। आहार के
लिए खाद्य पदार्थ के चयन में आहार पिरामिड का क्या
महत्व है ? 5
6. (क) हमारे शरीर के वे तीन महत्वपूर्ण कार्य लिखिए,
जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3
- (ख) फलों एवं सब्जियों में उपस्थित रंग के रंजकों का संक्षेप
में वर्णन कीजिए। 5
- (ग) कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का कायिकी मान क्या
है ? 2
7. (क) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : $5 \times 1 = 5$
- (i) _____ मसालों का मूल स्थान है।
 - (ii) _____ को मसालों की रानी कहते हैं।
 - (iii) _____ को मसालों का राजा कहते हैं।
 - (iv) काली मिर्च में तीक्ष्णता अंश _____ के
कारण होता है।
 - (v) काली मिर्च में मिलावट मुख्य रूप से
_____ की जाती है।
- (ख) पोषक तत्व हानियों को कम करने संबंधी विभिन्न
विधियों के नाम लिखिए। 5

8. (क) गन्ने से बनाए जाने वाले उत्पादों की सूची तैयार कीजिए।

5

(ख) निम्नलिखित के पूरे रूप लिखिए : $5 \times 1 = 5$

- (i) बी.आई.एस.
 - (ii) आई.एस.ओ.
 - (iii) एच.ए.सी.सी.पी.
 - (iv) जी.एम.पी.
 - (v) एम.एफ.पी.आई.
-